BIHAR SPONGE IRON LIMITED.

REGISTERED OFFICE & PLANT: UMESH NAGAR, CHANDIL-832401, DISTT. SARAIKELA - KHARSAWAN, JHARKHAND PHONE (EPABX): 06591-232410, 232417, Fax: 06591-232412

E-mail: bsilchandil@gmail.com / Web: bsil.org.in CIN: L27106JH1982PLC001633

BSIL/CS/SE/2019

Dated: 16th August, 2019

The General Manager Listing Centre BSE Limited P J Towers, Dalal Street,

MUMBAI- 400 001

SUB: NEWSPAPER PUBLICATIONS OF NOTICE OF 37TH AGM, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE.

SCRIP CODE: 500058

Dear Sir / Ma'am,

Pursuant to regulation 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations 2015, Please find enclosed herewith the Newspaper Publications of Notice of 37th Annual General Meeting of the Company, Remote E-Voting and Book Closure published in the English National Daily Newspaper "The Financial Express" and in the Daily Hindi Newspaper "Naya India" on 15th August, 2019.

The above is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For BIHAR SPONGE IRON LTD.

Himam Mittal

Company Secretary & Compliance officer

Jharkhand

E-mail: companysecretary@bsit.org.in

Encl: a/a

वया इंडिया

भारत ने संयुक्तराष्ट्र के कोष को दिये 10 लाख डॉलर : (संयुक्तराष्ट्र, भाषा) भारत ने संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वय प्रणाली के लिये विशेष उद्देश्य न्यास कोष में 10 लाख डॉलर का योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने मंगलवार को ट्वीट किया, ''ठोस योगदान। भारत संयुक्त राष्ट्र की विकास प्रणाली में सुधार के प्रति ठोस योगदान देकर खुश है। '' विश्व निकाय का यह कोष सभी भागीदारों के योगदान तथा वित्तीय लेन-देन का पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से लेखा-जोखा रखने के लिये बनाया गया है।

परदेश/कूटनीति

सार समाचार

हांगकांग हवाई अड्डे से नियमित उड़ानें शुरू

हांगकांग, एएफपी। हांगकांग हवाई अड्डे पर लोकतंत्र समर्थकों के प्रदर्शनों की वजह से मची अफरा-तफरी के एक दिन बाद बुधवार को अधिकतर उड़ाने निर्धारित समय पर रवाना हुईं। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार लगातार दूसरे दिन हवाई अड्डे के दो टर्मिनल को बाधित कर दिया था, जिसकी वजह से सैकड़ों उड़ानों को रद्द करना पड़ा। हांगकांग में 10 हफ्ते से राजनीतिक गतिरोध जारी है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार दोपहर यात्रियों को विमान में चढ़ने से रोका। इसके बाद देर शाम हवाई अड्डे के टर्मिनल के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। वे दो व्यक्तियों के जासूस या पुलिस का आदमी होने का अरोप लगा रहे थे। हालांकि, बुधवार सुबह अधिकतर प्रदर्शनकारियों ने टर्मिनल की इमारत खाली कर दी और इसके बाद नियमित समयसारिणी के अनुसार विमानों का परिचालन शुरू हुआ। हवाई अड्डे की वेबसाइट की मुताबिक मंगलवार रात दर्जनों विमानों ने उड़ान भरी और बुधवार को भी सैकड़ों उड़ानें संचालित होनी है हालांकि इनमें से कई उड़ानों में देरी की सूचना है।

पोम्पिओ ने पाकिस्तान को दी स्वतंत्रता दिवस पर बधाई

वॉशिंगटन, भाषा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। साथ ही कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान क्षेत्रीय स्थिरता एवं शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों को तेज करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे। पोम्पिओ ने मंगलवार को पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर एक बयान में कहा कि पिछले कई वर्षों में, जब अमेरिका और पाकिस्तान ने मिल कर काम किया तो काफी कुछ हासिल किया। उन्होंने कहा, '' आने वाले वर्षों में, हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के हालिया दौरे पर की गई प्रतिबद्धता को पूरा किया जाएगा और क्षेत्रीय स्थिरता एवं शांति को बढ़ावा देने के हमारे महत्वपूर्ण प्रयास गहरे होंगे।' पोम्पिओ ने कहा, '' अमेरिकी सरकार की ओर से मैं पाकिस्तान के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं।'' उन्होंने कहा, '' हम दोनों देशों को समृद्धि प्रदान करने और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका-पाकिस्तान व्यापार संबंधों में वृद्धि की भी उम्मीद करते हैं।'' गौरतलब है कि खान ने जुलाई में अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की थी और पाकिस्तान के अफगान शांति प्रक्रिया तथा आतंकवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आश्वासन दिया था।

जापान में लू से 23 लोगों की मौत

टोक्यो, वार्ता। जापान में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से पिछले एक सप्ताह के भीतर कम से कम 23 लोगों की जानें जा चुकी है और 12,000 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्निशमन विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी। विभाग ने पांच से 11 अगस्त की अवधि में संग्रहित डाटा जारी किया है। डाटा के मुताबिक मृतकों में ज्यादातर लोग राजधानी टोक्यों से हैं , जहां गर्मी और लू से प्रभावित करीब 1460 लोगों का अस्पताल में उपचार

सेंसेक्स 353 और निफ्टी ने 103

मुंबई 📕 वार्ता

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव में

कमी की रिपोर्ट, वैश्विक शेयर बाजारों के

सकारात्मक संकेत और विभिन्न वर्गों के शेयरों

में जोरदार लिवाली के बीच बुधवार को देश के

शेयर बाजार गत दिवस की तगड़ी गिरावट से

उबरते हुए मुंबई शेयर बाजार का 30 अंकों वाला

संवेदी सूचकांक 353 अंक की छलांग से 37000

अंक के पार बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

आयात होने वाली वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क

अब हिंदी में संवाद करेगा

बेंगलुरू, भाषा। अमेजन इंडिया का मैसेजिंग

असिस्टेंट अब हिंदी में भी उपभोक्ताओं से संवाद

कर सकेगा। कंपनी ने बुधवार को इसकी घोषणा

की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि अब हिंदी

को तरजीह देने वाले लाखों उपभोक्ता अपनी

पसंदीदा भाषा में अपने सवालों के जवाब पा

सकेंगे। उसने कहा कि उसका लक्ष्य इसके जरिये

भाषा के बंधन से परे होकर उपभोक्ताओं को

सेवाएं) अक्षय प्रभु ने कहा, ''हिंदी में चैट

असिस्टेंट एक अरब भारतीय उपभोक्ताओं को

सेवा मुहैया कराने तथा अमेजन से खरीदारी का अवसर देने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता

अमेजन ईंडिया के निदेशक (उपभोक्ता

निर्बाध सेवाएं मुहैया कराना है।

अमेजन का असिस्टेंट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन से

का निफ्टी ने भी 103 अंक की छलांग लगाई।

अंक लगाई छलांग।

आर्थिकी/कंपनियां

भारत, चीन को एक-दूसरे की 'मुख्य चिंताओं' का सम्मान करना चाहिए

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन को एक-दूसरे की चिंताओं का सम्मान करना चाहिए और मतभेदों को दूर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एशिया के दो बड़े देशों के बीच संबंध ''इतने विशाल'' हो गए हैं कि उसने ''वैश्विक आयाम' हासिल कर लिए हैं।

सोमवार को बीजिंग की तीन दिवसीय यात्रा पूरी करने वाले जयशंकर ने भारत-चीन संबंधों के सभी पहलुओं पर अपने समकक्ष वांग यी के साथ व्यापक और गहन चर्चा की।

वह चीन के उपराष्ट्रपति वांग किशान से भी मिले जिन्हें राष्ट्रपति शी चिनफिंग का करीबी माना जाता है। जयशंकर ने रविवार को यहां सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि

दो सबसे बडे विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत और चीन के बीच सहयोग दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खबर में जयशंकर के हवाले से

कहा गया, ''हमारे संबंध इतने विशाल हैं कि अब यह सिर्फ द्विपक्षीय संबंध नहीं रहे। इसके वैश्विक आयाम हैं।''

उन्होंने कहा कि भारत और चीन को विश्व शांति, स्थिरता और विकास में योगदान देने के लिए जरूरत है।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समानता वाले क्षेत्रों की तलाश करनी चाहिए, एक-दूसरे की मुख्य चिंताओं का सम्मान करना चाहिए, मतभेदों को दूर करना चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में सामरिक दृष्टि रखनी चाहिए।

विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पडोसी देशों का हजारों साल पुराना इतिहास है और दोनों देशों की सभ्यताएं सबसे पुरानी है जो पूर्व की सभ्यता के दो स्तंभों को दर्शाती है। भारत और चीन पिछले साल अप्रैल में लोगों के बीच आपसी संपर्क बढाने के लिए उच्च स्तरीय तंत्र स्थापित करने पर सहमत हो गए थे और इस संबंध में पहली बैठक दिसंबर में नयी दिल्ली में हुई थी। इस कदम को ''द्विपक्षीय संबंधों को संकीर्ण कुटनीतिक क्षेत्र

जाने ' जैसा बताते हुए जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के लोग जितना ज्यादा एक-दसरे से प्रत्यक्ष बातचीत करेंगे उतना ही एक-दसरे से जुड़े होने की भावना बढ़ेगी। विदेश मंत्रालय संभालने के बाद यह जयशंकर की चीन की पहली यात्रा थी। वह इससे पहले साल 2009 से 2013 तक चीन में भारत

के राजदूत रहे। यह बीजिंग में किसी

भारतीय राजनियक का सबसे लंबा

कार्यकाल रहा था। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के भारत के कदम से पहले ही उनकी यात्रा तय हो गई थी। जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी औपचारिक शिखर वार्ता के लिए इस साल राष्ट्रपति शी चिनफिंग की भारत यात्रा के लिए तैयारियों पर भी चर्चा की।

कश्मीरी और पाकिस्तानी एक हैं : पाक राष्ट्रपति

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बुधवार को कहा कि 'कश्मीरी और पाकिस्तानी एक हैं ' और उनका देश तथा देशवासी कश्मीर के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। यहां पाकिस्तान के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत सरकार के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान सरकार का रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद, नई दिल्ली के फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रुख करेगा।

उन्होंने कहा कि कश्मीर के विशेष दर्जे में बदलाव कर भारत ने न केवल संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का बल्कि शिमला समझौता का भी उल्लंघन किया है।

वहीं, भारत ने अंतररष्ट्रीय समुदाय को साफ तौर पर कह दिया है कि अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू–कश्मीर को दिया गया विशेष

भारत, चीन अब विकासशील देश नहीं : ट्रंप

दर्जा खत्म करने का फैसला पूरी तरह से उसका आंतरिक मामला है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को वास्तविकता स्वीकार करने की सलाह दी है। अल्वी ने अपने भाषण में कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान के समर्थन का भरोसा दिया।

सरकारी एजेंसी एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में अल्वी को यह कहते हुए उद्धत किया, '' हम उन्हें किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ेंगे। कश्मीरी और पाकिस्तानी एक हैं। हमारा दुख एक है और उनके आंसू हमारे दिलों तक पहुंचते हैं। हम उनके साथ हैं और रहेंगे। '' उन्होंने कहा कि भारत नियंत्रण रेखा पर गैर सैन्य इलाकों को निशाना बनाकर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करता रहा है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा, '' पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है और कश्मीर विवाद को बातचीत के जरिये सुलझाना चाहता है, लेकिन भारत हमारी शांति की नीति को कमजोरी समझने की भूल न करे।'

कश्मीर मुद्दे पर यूएनएससी का सत्र बुलाने की मांग की

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जी देने वाले अनुच्छेद 370 हटाये जाने के

सत्र बुलाये जाने की मांग की है। कुरैशी ने भारत के इस फैसले को पहले ही आह्वान कर चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र के मानदंड के विपरीत असंवैधानिक कृत्य करार देते हुए कहा कहा कि आकस्मिक सत्र आयोजित कर इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा , ' परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद (यूएनएससी) के अध्यक्ष को पत्र तक जाने के लिए तैयार हैं।" लिखकर कश्मीर मुद्दे पर आकस्मिक पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ऐसे समय यह पत्र लिख है , जब यूएनएससी जियो न्यूज के मुताबिक श्री इस मुद्दे के द्विपक्षीय संकल्प का

पाक में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दीवार गिरने से पांच मरे

पेशावर, भाषा। उत्तरी पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दीवार गिरने से बुधवार को कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह घटना गिलगित-बाल्टिस्तान के एक हेलीपैड पर हुई जहां देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान सेना की निगरानी में एक

वाशिंगटन 📕 भाषा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और चीन अब विकासशील देश नहीं है और वे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से मिल रहे दर्जे का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अब इसे आगे नहीं होने देंगे। 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के

टी जंक्शन ने पहला

स्टोर साकेत में खोला

नर्ड दिल्ली,वार्ता। पूर्वी भारत की जायकेदार एवं अंबजा नियोटीया

समूह की सबसे पुरानी चाय और किव्क सर्विस रेस्तरां श्रुखंला टी

जंक्शन का स्वाद अब दिल्ली में उपलब्ध होगा। कंपनी ने राजधानी

के पॉश इलाके साकेत में अपना पहला आउटलेट खोला है । टी

जंक्शन के निदेशक पार्थिव नियोटिया ने बताया कि देश में कंपनी का

यह 50 वां स्टोर है। उन्होंने कहा, "उत्तर भारत में पहले आउटलेट

को लेकर हमें कारोबार विस्तार की बहुत उम्मीद है। टी जंक्शन के

इस आउटलेट पर 'कुल्हड़ वाली चाय' और स्वादिष्ट व्यंजनों का

दिल्ली के उपभोक्ता आनंद उठा सकेंगे।" श्री नियोटिया ने बताया कि

कंपनी वैसे तो सभी आय वर्गों के लिए कई खाद्य और पेय विकल्प

उपलब्धता कराती है किंतु अदरक की चाय और केसरिया चाय की

मांग सर्वाधिक है। दोनों स्वादों की चाय सभी आयु वर्ग के लोगों की

बहुत पसंदीदा है। कंपनी के बबल टी जैसे विकल्प युवाओं को बहुत

पसंद हैं। उन्होंने बताया कि टी जंक्शन के आउटलेट पर चाय मिट्टी

के कुल्हड़ में उपलब्ध कराई जाती है जो चाय पीने के पारंपरिक

अंदाज का अहसास कराती है। श्री नियोटिया ने बताया कि पूर्वी भारत

के चाय बाजार में मजबूत पकड़ बनाने के बाद कंपनी की देश के

उत्तरी क्षेत्र में तेजी से विस्तार की योजना है।

पैरोकार ट्रंप अमेरिकी उत्पादों पर अधिक दर से शुल्क लगाने को लेकर भारत की आँलोचना करते रहे हैं और दक्षिण एशियाई देश को शुल्क लगाने के मामले में सबसे आगे रहने वाला देश कहा है।

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है। ट्रंप के चीनी वस्तुओं पर दंडात्मक शुल्क लगाने के बाद चीन ने भी जवाबी कदम उठाया है।

इससे पहले, जुलाई में ट्रंप ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से यह बताने को कहा कि वह कैसे किसी देश को विकासशील देश का



दर्जा देता है। इस कदम का मकसद चीन, तुर्की ओर भारत जैसे देशों को इस व्यवस्था से अलग करना है जिन्हें वैश्विक व्यापार नियमों के तहत रियायतें मिल रही हैं।

ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिया (यूएसटीआर) को अधिकार देते हुए कहा है कि कोई विकसित अर्थव्यवस्था डब्ल्यूटीओ की

ट्रम्प ने डब्ल्यूटीओं से हटने की धमकी दी

मोनाका (अमेरिका), एएफपी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अगर स्थितियां नहीं सुधरीं तो अमेरिका विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से हट जाएगा। ट्रम्प ने पेन्सिलवेनिया के एक 'शेल कैमिकल प्लांट' में मंगलवार को कर्मचारियों से कहा, ''अगर हमें छोड़ना पड़ा तो हम छोड़ देंगे।'' उन्होंने कहा, ''हमें पता है कि कई वर्षों से वे हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये अब और नहीं होगा।" ट्रम्प ने पहले भी कई बार डब्ल्यूटीओ पर अमेरिका के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है और उससे हटने की धमकी भी दी है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन को डब्ल्यूटीओ के नियमों को मानने की

बिहार स्पोन्ज आयरन लिमिटेड पंजी. कार्यालय : उमेश नगर, चांडिल सरायकेला—खरसावां, झारखंड–832401 फोन : 06591-232410, 232417, फैक्स : 06591-232412 सीआईएन : एल27106जेएच1982पीएलसी001633, www.bsil.org.in 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई—वोटिंग तथा बही बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार स्पोन्ज आयरन लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक अ बैठक सोमवार, 09 सितम्बर, 2019 को अप. 2.00 बजे, कम्पनी के अतिथि गृह उमेश नगर. चांडि जिला सरायकेला—खरसावा, झारखंड—832401 में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम सूचना निर्धारित व्यवसाय निष्पादित किया जाएगा।

ानवागिरत व्यवसाय ानधानित किया जिएगा।
31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपॉट के साथ बैठक की सूचना समें
सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दी गई है जिनकी ई—मेल आईडी आरटीए और डिपॉजिटर्र प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं और उसी की भौतिक प्रतियां 13 अगस्त 2019 तक अनुमत मोड मे उनके पंजीकृत पते पर अन्य सभी सदस्यों को मेजी गई हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2019 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 सदस्यों को एजीएम ('रिमोर क ानवम 20 आर सबा (एलआडाआर) ावानयम, 2015 क ावानयमन 44 सदस्या का एजाएम (१२माट ई—बोटिंग') के स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है, जो कॅद्रीय डिपॉजिटर्र सिक्योरिटी लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाती है। (सीडीएसएल) और व्यापार को इस तरह के नतदान प्रणाली के माध्यम के लेन—देन किया जा सकता है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: (i) एजीएम सूचना में निर्धारित व्यवसाय रिमोट ई—वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है :

(ii) रिमोट ई— वोटिंग 06 सितम्बर, 2019, शुक्रवार को पूर्वा. 9.00 बजे प्रारंभ होगी तथा 08 सितम्बर 2019, रविवार को अप. 5.00 बजे समाप्त होगी

(iii)रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से तथा एजीएम के स्थान पर वोटिंग के लिए सदस्यों ग्राह्म निर्घारण हेतु विच्छेदन तिथि कट—ऑफ डेट 02 सितम्बर, 2019 है।

(iv)कोई व्यक्ति जिसने एजीएम की सूचना प्रेषण के बाद किंतु विच्छेदन तिथि 02 सितम्बर, 2019 से पूर्व शेयर अर्जित किए हैं तथा कम्पनी का सदस्य बना है, ई—वोटिंग के लिए अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड कम्पनी आरटीए (बीटल फाइनैंशियल ऐण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. से heetalrta@gmail.com पर अथवा सीडीएसएल से helpdesk evoting@cd पर प्राप्त कर सकता है

(v) सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग 08 सितम्बर, 2019 को अप. 5.00 बजे निष्क्रिय कर दी जाएगी तथा उक्त तिथि एवं समय के बाद वोटिंग की अनुमति नहीं होगी

(vi) एजीएम में मतपत्र के जरिये मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी (vii) सदस्य रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वॉट डालने के बाद एजीएम में भाग ले सकता है परंर् एजीएम में पुनः वोट डालने की अनुमित नहीं होगी

(viii) केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में मतपत्र द्वारा वोट डालने का हकदाः होगा, जिसका नाम विच्छेदन तिथि को सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षि लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में दर्ज मौजूद होगा। (ix)एजीएम की सचना कम्पनी की वेबसाइट www.bsil.org.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइ

www.evotingindia.co.in पर भी उपलब्ध है।

(x) निदेशक मंडल ने श्रीमती नुपुर गुप्ता, कार्यरत चार्टर्ड अकाउन्टैंट, को, ई—वोटिंग प्रक्रिया क संचालन निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करने हेतु, संवीक्षक नियुक्त किया है। (xi) किसी संदेह की स्थिति में, सदस्यगण सदस्यों के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूर

, तथा सदस्यों के लिए ई—वोटिंग यूजर मैनुअल देखें, जो www.evotingindia.co.in पर उपलब हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा companysecretary@bsil.org.in पर मेल कर सकते हैं अथवा 1800-200-5533 पर सीडीएसएल हेल्पडेरक टीम को अथवा 0111-42504666 पर कम्पनी की कम्पनी सचिव हिमानी मित्तल को कॉल कर सकते हैं, जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग से संबंधित शिकायतों का निवारण भी किया जाएगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दायित एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2014 के विनयम 42 के अनुपालन हेतु, कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां, मंगलवार, 03 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 09 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन शामिल हैं) तक एजीएम के

स्थान : नई दिल्ली

हिमानी मित्तव (कम्पनी सचिव)

चार लाख लोगों को 'समर्थ' बनाएगा वस्त्र मंत्रालाय

18 राज्यों के साथ करार

सचकांक मंगलवार के 36958.16 अंक की तलना

में कारोबार की शुरुआत में 3723350 अंक पर

खुला और 37473.61 के ऊंचे स्तर तथा नीचे में

37000.77 अंक तक गिरने के बाद समाप्त पर

कुल 353.37 अंक अर्थात 0.96 प्रतिशत की बढ़त

से 37311.53 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स से जुड़ी

30 कंपनियों में 24 के शेयरों में तेजी जबकि छह

में गिरावट रही। एनएसई का निफ्टी भी 103.55

अंक अर्थात 0.95 प्रतिशत की बढ़त से 11029.40

अंक पर बंद हुआ। निफ्टी से जुड़ी 50 कंपनियों

के शेयरों में से 37 के लाभ और 13 के नुकसान

में रहे। कच्चे तेल की कीमतों में कमी से भी बाजार

को मजबूती मिली। सत्र के दौरान बीएसई में कुल

2615 कंपनियों के शेयरों में कामकाज हुआ

जिसमें 1319 के शेयरों में तेजी आई जबकि 1156

में नुकसान और 140 में कोई घट-बढ़ नहीं हुई।

नई दिल्ली 📕 भाषा

शेयर बाजारों में रौनक लौटी

लगाए जाने के फैसले को टालने की रिपोर्टों से

दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव कम होने की

उम्मीद से वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी देखी गई।

मद्रास्फीति में नरमी, रिजर्व बैंक के आगे और

ब्याज दरों में गिरावट की संभावना भी शेयर

बाजार के लिए अच्छी रिपोर्ट रही। संवेदी

देश के 18 राज्यों के करीब चार लाख लोगों को ' समर्थ ' योजना के तहत कुशल बनाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र से जुड़े कामकाजों में लोगों को दक्ष बनाना और क्षमता निर्माण करना है। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझौते पर

बुधवार को वस्त्र मंत्रालय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच इसे लेकर समझौतों का आदान - प्रदान किया गया। इस दौरान , केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद ईरानी ने कहा, 'राज्य सरकारों के

प्रतिनिधियों ने यहां उपस्थित होकर तत्परता



दिखायी है। भारत सरकार समेत सभी 18 राज्य ने एक छत के नीचे चार लाख लोगों को कुशल बनाने का संकल्प लिया है। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में यह इस तरह का अब तक का पहला बड़ा कदम है।'

जिन 18 राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर

किए हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश , जम्मू कश्मीर , केरल , मिजोरम , तमिलनाडु , तेलंगाना , उत्तर प्रदेश , आंध्र प्रदेश , असम, मध्य प्रदेश , त्रिपुरा , कर्नाटक , ओडिशा , मणिपुर , हरियाणां , मेघालय , झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं। वस्त्र से जुड़े जिन क्षेत्रों में लोगों को कुशल बनाया जाएगा उनमें तैयार परिधान , बुने हुए कपड़े , धातु हस्तकला , हथकरघा, हस्तकला और कालीन शामिल हैं। ईरानी ने कहा

, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि नए भारत में हम यह सुनिश्चित करें कि अजीविका की इच्छा रखने वाला हर नागरिक कुशल और दक्ष हो।'

जिंदल स्टील एंड पावर को 87 करोड़ का शुद्ध घाटा

नई दिल्ली, भाषा। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) को खर्च ऊंचा रहने से चालू वित्त वर्ष की 30 जून को समाप्त तिमाही में 87 करोड़ रुपयें का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ है। पिछले साल अप्रैल - जून तिमाही में उसे 110 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ हुआ था। जेएसपीएल ने बंबई शेयर बाजार को बुधवार को बताया कि समीक्षाधीन अवधि में उसकी कुल आय 9,946 करोड़ रुपये रही। 2018-19 की पहली तिमाही में उसकी आय 9,665 करोड़ रुपये थी। कुल खर्च अप्रैल - जून 2018 में 9,400 करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल - जून 2019 में 9,935 करोड़ रुपये हो गया। जेएसपीएल ने एक अलग बयान में कहा कि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली

तिमाही में 18.5 लाख टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया। 2018-19 की पहली तिमाही में यह 16.5 लाख टन था। इस दौरान , 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान , कंपनी ने 18.4 लाख टन कच्चे इस्पात की बिक्री की। एक साल पहले की अप्रैल - जून अवधि में उसने 16.1

एसबीआई कार्ड के आईपीओ की तैयारी

नई दिल्ली, भाषा। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) क्रेडिट कार्ड कारोबार करने वाले अपने संयुक्त उद्यम एसबीआई काइर्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रथम सार्वजनिक शेयर निर्गम के जरिए उसमें अपनी हिस्सेदारी कम करेगा। बैंक ने बुधवार को यह जानकारी दी। स्टेट बैंक की अपनी इस अनुषंगी में फिलहाल 74 फीसदी हिस्सेदारी है। 26 प्रतिशत हिस्सेदारी कारलाइल समूह के

अंसल प्रोपर्टीज को 24 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा

नई दिल्ली, भाषा। रियल्टी फर्म अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (अंसल एपीआई) ने 30 जून को समाप्त तिमाही में 23.98 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा दर्ज किया है। कंपनी ने पिछले साल की समान अवधि में 24.14 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया था। अंसल एपीआई ने एक नियामकीय सुचना में कहा कि नवीनतम तिमाही में कुल आय दो गुना बढ़कर 245.04 करोड़ रुपये हो गई।

बिहार स्पोन्ज आयरन लिमिटेड पंजी. कार्यालय : उमेश नगर, चांडिल जिला सरायकेला खरसावां, झारखंड-832401 ई–मेल : companysecretary@bsil.org.in / वेबसाइट : www.bsil.org.in

30 जून, 2019 की समाप्त हेतु पृथ्वकृत अ—लेखापरक्षित विद्ताय पारणीमा की सक्षिप्त विवरण							
				(रु. लाखों में)			
豖.	विवरण	तिमाही	समाप्त	वर्ष समाप्त			
सं.		तिमाही समाप्त 30.06.2019 (अ—लेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30.06.2018 (अ—लेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2019 (लेखापरीक्षित)			
1.	प्रचालनों से कुल आय	174.58	192.70	864.97			
2.	अविध हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, असाधारण मदों से पहले)	20.48	10.36	119.65			
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाम 🖊 (हानि) कर से पहले (असाधारण मदों के बाद)	(2.68)	(3.98)	(10.87)			
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ 🖊 (हानि) कर पश्चात (असाधारण मदों के बाद)	(2.68)	(3.98)	(10.87)			
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [अवधि हेतु शुद्ध लाम / (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) शामिल है]	(2.68)	(3.98)	(10.87)			
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	902,054	902,054	902,054			
7.	प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रु 10 / – प्रत्येक)						
	(निरंतर और बंद किए गए आपरेशनों के लिए)						
	क. मूल (रु. में)	0.00	0.00	(0.01)			
	ख. तनुकृत (रु. में)	0.00	0.00	(0.01)			

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारुप का सारकित रुप हैं 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारुप स्टॉक एक्सचेन्ज की वबेसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट: www.bsil.org.in पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त परिणाम भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज़ एएस) के अनुसार जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित है कंपनियों के नियम : (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) के साथ पढें।

वास्ते बिहार स्पोन्ज आयरन लिमिटेड

हस्ता. / -यू. के. मोदी

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 14 अगस्त, 2019

(डीआईएन : 00002757)

FINANCIAL EXPRESS

BIHAR SPONGE IRON LTD.

Regd. Office: Umesh Nagar, Chandil, Saraikela-Kharsawan, Jharkhand-832401 Ph.: 06591-232410, 232417, Fax: 06591-232412, E-Mail: companysecretary@bsil.org.in CIN: L27106JH1982PLC001633, www.bsil.org.in;

> NOTICE OF THE 37™ ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 37th Annual General Meeting of the Members of Bihar Sponge Iron Limited will be held on Monday, 9th September, 2019 at 2:00 PM at Company's Guest House, Umesh Nagar, Chandil, Dist. Sarailela- Kharsawan, Jharkhand-832401 to transact the business as set out in the AGM Notice.

The Notice of Meeting along with Annual Report for the financial year ended March 31, 2019 has been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with RTA and Depository Participants and physical copies of the same has been sent to all the other members at their registered addresses in the permitted mode as on August 13, 2019.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. Members are provided with the facility to cast their votes on al resolutions set forth in the notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by Central Depository Securities Limited(CDSL) and the business may be transacted through such voting system. All the members are informed that:

(i) The business as set out in the Notice of AGM may be transacted through remote

(ii) The remote e-voting shall commence from September 06, 2019, Friday at 9:00 a.m. and end on September 08, 2019, Sunday at 5:00 p.m.

(iii) The cut-off date for the purpose of determining members for voting through remote e-voting and at the Venue of AGM is September 02, 2019.

(iv) Any person who acquires shares and become members of the Company after the dispatch of AGM Notice but before the cut-off date of September 02, 2019, may obtain their user ID and password for the e-voting from the Company RTA (Beetal Financial and Computer Services Pvt. Ltd.) at beetalrta@gmail.com or CDSL at

 (v) The remote e-voting shall be disabled by COSL after September 08, 2019 at 5:00 pm and no voting shall allowed after the said time and date.

(vi) The facility of voting through ballot paper shall be made available at the AGM. (vii) A member may participate in the AGM after exercising his vote through remote e-voting

helpdesk.evoting@cdslindia.com.

but shall not be allowed to vote again in the AGM viii)A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be

entitled to avail the remote e-voting or votingat AGM through ballot papers. (ix) The Notice of AGM is available on the Company's website www.bsil.org.in and also on the CDSL website www.evotingindia.co.in

(x) The Board of Directors has appointed Mrs. Nupur Gupta, Chartered Accountant in Practice to act as scrutinizer for E-voting process, in a fair and transparent manner.

(xi) In case of any queries, member may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at www.evotingindia.co.in or mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or companysecretary@bsil.org in or by calling CDSL helpdesk team on 18002005533 or Ms. Himani Mittal, Company Secretary of the Company at 011-42504666 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Member and Share transfer book of the Company will remain closed from Tuesday, September 03, 2019 to Monday, September 09, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM. By Order of the Board

Himani Mittal Date: August 14, 2019. Place: New Delhi (Company Secretary)



MODERN STEELS LIMITED

CIN: L27109PB1973PL0003358 Corporate Office: SCO 98-99, Sub City Centre, Sector 34, Chandigart-160022.

Registered Office & Works: G.T. Road, Mandi Gobindgarh (Punjab)-147301

FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2019

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (REVIEWED)

		i -	₹ in Lacs except EP
Particulars (Refer Notes below)	Quarter ended 30th June, 2019	Corresponding 3 months ended on 30th June, 2018	Previous year ender 31st March, 2019
	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations (net)	7,486.00	8,857.00	32,340.00
Profit (Net loss) from ordinary activities after tax	24.00	(962.00)	(2,521.00)
Profit/(Net loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	24:00	(962.00)	(2,526.00)
Equity Share Capital	1,440,00	1,440.00	1,440.00
Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in balance sheet of previous year)	*		(8,265.00)
Profiti(Loss) per share (for continuing operations) (of ₹10 each)			1 222 123
(a) Basic	0.18	(6,99)	(18.32)
(b) Diluted	0.18	(6.99)	(18.32)
Profit/(Loss) per share (for continuing and discontinued operations) (of ₹10 each)			
(a) Basic	0.18	(6.99)	(18,32)
(b) Diluted	0.18	(6.99)	(18.32)

Notes:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the stock exchange website (www.bseindia.com)

For and on behalf of Board of Directors Dildar Singh Gill Place: Chandigarh Director Date: 13th August 2019 (DIN: 00211236)

CORRIGENDUM NOTICE

SR. No.: 1 LETTER/MEMO No. & DATE: Ch-19/NIT No. 250/P&D/2019-20/Bid No. B-594 dated: 09.08.2019. NAME OF DEPT/ BOARD/ CORP./ AUTH.: UHBVN.

NATURE OF CORRIGENDUM: CORRIGENDUM-V. Bilurcation/Triturcation of Overloaded Feeders, Augmentation of Conductor of HT Line and New DT, under Operation Circle UHBVN, Sonepat on turnkey basis. Opening Date: 27.08.2019.

xendd2@uhbvn.org.in.

Sd/- Chief Engineer/PD&C, UHBVN, Panchkula

CORRIGENDUM NOTICE

LETTER/MEMO No. & DATE: Ch-19/NIT No. 252/P&D/2019-20/Bid No. B-596 dated: 09.08.2019. NAME OF DEPT/ BOARD/ CORP./ AUTH.: UHBVN.

SR. No.: 1

OLD REFERENCE/NIT/TENDER NO.: NIT No. 252/P&D/2019-20/Bid No. B-596.

NODAL OFFICER/CONTACT DETAILS/EMAIL: XEN/DD-II, UHBVN, Panchkula, Tel. No. 01723019143, E-mail:

Sd/- Chief Engineer/PD&C, UHB VN, Panchkula

TRIDEV INFRAESTATES LIMITED

CIN NO: L65100DL1988PLC033812

Website :www.tridevinfraestates.in E-mail ID - ashutoshpapermills@gmail.com

QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019

S. No.	Particulars	ended 30.06.2019	Quarter ended 30.06.2018	Year ended 31.03.2019	
NO.	Wiley M. Podz-Gren	Un-audited	Un-audited	Audited	
1.	Total Income from Operations	1.81	3.12	22.06	
2.	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional/ Extraordinary items)	0.22	0.41	7.66	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax after Exceptional/ Extraordinary items)	0.22	0,41	7.66	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional/ Extraordinary items)	0.17	0.41	5.67	
5.	Total Comprehensive Income for the period(Comprising profit /Loss for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)	0.17	0.41	5.67	
6.	Equity Share Capital	652.54	652.54	652.54	
7.	Reserve (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	8		
8.	Earning Per Share(Face Value of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
a	Basic	0.00	0.01	0.087	
b	Diluted	0.00	0.01	0.087	

For Tridev Infraestates Limited SD/

Managing Director

SAMTEL INDIA LIMITED

S.			uarter Ende	d	Year Ende	
No	Particulars	30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	30.06.2018 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	
1	Total Income from operations	-	100	116	90	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	(2.27)	(2.03)	(2.03)	(28.22)	
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	(2.27)	(2.03)	(2.03)	(28.22)	
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	(2.27)	(2.03)	(2.03)	(28.22)	
5	Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit/(Loss) for the period(After Tax)& other Comprehensive Income (after Tax)	81 718			122	
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	708.42	708.42	708.42	708.42	
7	Reserves(excluding Revaluation Reserves) as shown in the audited Balance Sheet of the previous year)				(555.55)	
8	Earning Per Share (Face Value of Rs. 10/- each)					
	Basic	(0.003)	(0.003)	(0.014)	(0.040)	
	Diluted	(0.003)	(0.003)	(0.014)	(0.040)	
9	Earning Per Share (after extraordinary items)(of Rs. 10/- each)					
	Basic	(0.003)	(0.003)	(0.014)	(0.040)	

Diluted

interim financial reporting as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard) Rule, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standard) Amendment Rule 2016.

Place : New Delhi Satish K. Kaura

JAY USHIN LIMITED

CIN: L52110DL1986PLC025118, E-mail: julinvestors@jushinindia.com Website: www.jpmgroup.co.in, Tel: 91(124)-4623400, Fax: +91(124)-4623403 Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the

	Quarter ended June 30, 2019 (Rs. In Lakhs)									
			Standalone			3	Consolidate	d	Year ender 8 31.03.2018 (Audited) 85,493.16 1,263.28	
SI. No.	Particulars	ticulars Quarter ended		Year ended	Quarter ended			Year ended		
		30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2019 (Unaudited)	30.06.2018 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	30.06.2019 (Unaudited)		30.06.2018 (Uraudited)	31.03.2018 (Audited)	
1.	Total Income from Operations	18,056.21	17,266.47	22,375.72	85,493.16	18,056.21	17,266.47		85,493.16	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	203.64	254.82	304.28	1,266.99	201.37	251.08		1,263.25	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	203.64	254.82	304.28	1,266.99	201.37	251.08		1,263.25	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	162.44	214.29	202.37	1,154.24	160.17	210.55	•	1,150.50	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	153.47	157.85	208.26	1,118.36	151.20	154.11		1,114.62	
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value per Share Rs. 10/-Each)	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45		386.45	
7.	Reserves i.e. Other equity (as per balance sheet of previous accounting year) Earnings per equity share (EPS)		22		7,092.21	5	3.		7,088.47	
8,	(of Rs. 10/- each)	11311904	73407	40.77	0.7204002047	Sec. 4	9000			
	a) Basic	4.20	5.55	5.24	29,87	4.14	5.45	1.	29.77	
	b) Diluted	4.20	5.55	5.24	29.87	4.14	5.45	-	29.77	

NOTES:

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, has been completed by the Statutory Auditors and they have expressed an unmodified opinion on the aforesaid results.

3.The company is primary engaged in the business of manufacturing and sale of automotive components and hence, there are no reportable segment as per Ind As 108."

Operating Segments" mandated under section 133 of the Companies Act, 2013 & rules framed thereunder. 4. The Consolidated financial results include the result of the Company and its one subsidiary which was incorporated on December 28, 2018. The Company together with its

financial results for the quarter ended March \$1, 2019 are approved by the board of directors of the Company but have not been subjected to review by the Statutory

The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the Quarterly /Half yearly Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company website www.jpmgroup.co.in

Place : Gurugram Dated : August 14, 2019

press.com

OLD REFERENCE/NIT/TENDER NO.: NIT No. 250/P&D/2019-20/Bid No. 8-594

WEBSITE OF THE DEPT/BOARD/ CORP./AUTH.: www.uhbvn.org.in. NODAL OFFICER/CONTACT DETAILS/EMAIL: XEN/DD-II, UHBVN, Panchkula, Tel. No. 01723019143. E-mail:

NATURE OF CORRIGENDUM: CORRIGENDUM-V. Bilurcation/Triturcation of Overloaded Feeders, Augmentation of Conductor of HT Line and New DT, under Operation Circle UHBVN, Jhajjar on turnkey basis. Opening Date: WEBSITE OF THE DEPT/BOARD/ CORP./AUTH.: www.uhbvn.org.in.

xendd2@uhbvn.org.in.

(Formerly Ashutosh Paper Mills Limited)

269 G/F Triveni Apartment Swayam Sewa CGHS Limited Jhilmil Colony Delhi East Delhi DL 110095

STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

S. No.	Particulars	ended 30.06.2019	30.06.2018	31.03.2019
		Un-audited	Un-audited	Audited
1.	Total Income from Operations	1.81	3.12	22.06
2.	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional/ Extraordinary items)	0.22	0.41	7.66
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax after Exceptional/ Extraordinary items)	0.22	0,41	7.66
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional/ Extraordinary items)	0.17	0.41	5.67
5.	Total Comprehensive Income for the period(Comprising profit /Loss for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)	0.17	0.41	5.67
6.	Equity Share Capital	652.54	652.54	652.54
7.	Reserve (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	8	3
8.	Earning Per Share(Face Value of ₹ 10/- each)(for continuing and discontinued operations)			
a	Basic	0.00	0.01	0.087
b	Diluted	0.00	0.01	0.087

The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended 30th June, 2019, filed with the Stock Exchanges. The full format of the financial results for the Quarter ended 30th June, 2019, is available on the website of the Stock Place: New Delhi Sunil Kumar Agarwal

Dated: 15.08.2019

Regd. Office: Village Naya Nohra, Tehsil Ladpura, Kota Baran Road, Kota, Rajasthan - 324001

CIN No: L31909RJ1981PLC012073 EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2019

Notes:

The above is an extract of the detailed format of unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 13th August, 2019. The full format of the Quarterly Financial Results are avaliable on the Stock Exchange web site - www.bseindia.com.

(0.003)

(0.003)

The above Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS-34),

For and on behalf of Board of Directors SAMTEL INDIA LIMITED Sd/-

Chairman and Managing Director

(0.014)

(0.040)

Registered Office: GI-48, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi-110033

Date: 13th August, 2019

		Quart	er ended .	June 30, 2	2019				(Rs. In Lakhs)
			Stand	alone		1	Consolidate	d	
SI. No.	Particulars		Quarte	r ended	Year ended		Quarter ende	ed	Year ended
		30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2019 (Unaudited)	30.06.2018 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	30.06.2019 (Unaudited)		30.06.2018 (Uraudited)	31.03.2018 (Audited)
1.	Total Income from Operations	18,056.21	17,266.47	22,375.72	85,493.16	18,056.21	17,266,47		85,493.16
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	203.64	254.82	304.28	1,266.99	201.37	251.08		1,263.25
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	203.64	254.82	304.28	1,266.99	201.37	251.08		1,263.25
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	162.44	214.29	202.37	1,154.24	160.17	210.55		1,150.50
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	153.47	157.85	208.26	1,118.36	151.20	154.11		1,114.62
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value per Share Rs. 10/-Each)	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45		386.45
7.	Reserves i.e. Other equity (as per balance sheet of previous accounting year)	8	Z		7,092.21		8		7,088.47
8.	Earnings per equity share (EPS) (of Rs. 10/- each)								
0,	a) Basic	4.20	5.55	5.24	29.87	4.14	5.45		29.77
	b) Diluted	4.20	5.55	5.24	29.87	4.14	APRIL 1	1	29.77
	1,000	Not annualised	Not annualised	Not annualised	Annualised	Y Williams and Thinks	Not annualised	4	Annualised

1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 14th August, 2019. The limited review, as required

2. The Company has adopted Ind AS 116 'Leases' effective from April 01, 2019 and applied the same to lease contracts. This has resulted in recognising with lease liability and corresponding Right of Use Asset. Accordingly the comparative for the quarter ended June 30, 2018, March 31, 2019 and for the year ended March 31, 2019 have not been retrospectively adjusted. The impact on Statements of Profit and Loss Account is not material.

subsidiary is herein to as the Group. In the previous year, the Company had opted to publish consolidated financial results on an annual basis Accordingly, the consolidated

For and on behalf of Board of Directors Jay Ushin Limited

Ashwani Minda Managing Director DIN: 00049966

ETM LIMITED

BAMPSL SECURITIES LIMITED

REGD. OFF.-100-A, CYCLE MARKET, JHANDEWALAN EXTN., NEW DELHI-110055 WEBSITE: www.bampslsecurities.co.in, Email ld: bampslsecurities@yahoo.co.in Telephone no.: -011-23556436, CIN NO.-L65100DL1995PLC065028

Extract of Unaudited Financial results for the Quarter ended 30th June 2019

	7		- 75	Amount (in Lakn	
		Quarter Ended		Year Ended	
	30.06.2019	31.03.2019	30.06.2013	31.03.2019	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
Total Income from Operations	47.79	864.21	152.06	1486.80	
Net Profit/Loss) (before Tax, Exceptional and/or Extraordinory items)	-1.61	-91.35	36.13	-8.43	
Net Profit/;Loss) before Tax (after Exceptional and/or Extraordinory items)	-1.61	-91.35	36.13	-8.43	
Net Profit/(Loss) after Tax (after Exceptional and/or Extraordinory items)	-1.08	-65.22	24.20	-9.69	
Total Comprehensive Income for the period and other Comprehensive income (after tax)	-1.08	-65.22	24.20	-9.69	
Equity Share Capital	3403.52	3403.52	3403.52	3403.52	
Earnings Per Share (of Rs 10/- each)					
Basic:	-0.0003	0.0192	0.0071	0.0028	
Diluted:	-0.0003	0.0192	0.0071	0.0028	
Note:		*	-		

1. The above is an extract of the detailed format of Quaterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full Format of the Quaterly Fianancial Results are available on the websites of BSE at www.bseindia.com and our company website at www.bampslse.curities.co.in

2. The aforesaid financial result have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors in its Board meeting held on 14th August 2019.

The Un-audited quaterly result are subject to limited review of the Auditors.

Figures for the prior period have been regrouped and/or rearranged wherever considered necessary.

By Order of the Board

Date:14.08.2019 Place: New Delhi **Bhisham Kumar Gupta Managing Director** DIN: 00110915

ABHINAV LEASING AND FINANCE LIMITED Regd. Off.: S 524, 1st floor, Vikas Marg, Shakarpur, New Delhi-110092

CIN NO:L67120DL1984PLC018748, EMAIL-abhinavleasefinltd@gmail.com Website: www.abhinavleasefinltd.in

STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019 Quarter Quarter ended Year ended **Particulars** ended 30.06.2018 31.03.2019 No. 30.06.2019 Un-audited Audited Un-audited 628.57 Total Income from Operation 60.72 301.47 1.89 2.15 1.86 Net Profit / (Loss) from ordinary before exceptional items and tax 1.17 1.89 2.15 Net Profit / (Loss) before tax (0.98)Net Profit/(Loss) for the period after tax 1.89 1.59 Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (Loss) 1.89 1.59 (3.81)and other Comprehensive Income for the period) Equity share Capital 499.8 499.8 499.8 Reserves Earning Per share (Face Value of Rs. 1/- each)

(Rs. in Lakhs)

a Basic

b Diluted

The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended 30th June 2019, filed with the Stock Exchanges. The full format of the financial results for the Quarter ended 30th June, 2019, is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on Company's website www.abhinavleasefinltd.in

For Abhinav Leasing and Finance Ltd

0.04

0.04

Place: New Delhi Dated: 15.08.2019

Mamta Agarwal **Managing Director**

0.004

0.004

0.008

0.008

AVON MERCANTILE LIMITED Regd. Office: S Global Knowledge Park, 19A & 19B, Sector-125, Noida-201301, Uttar Pradesh, Ph; 0120-3355131

CIN: L17118UP1985PLC026582

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2019

				(Rs. in Lakhs)
PARTICULARS	3 Months ended on 30.06.2019	Corresponding 3 months ended in the previous year on 30.06.2018	Preceding 3 months ended on 31.03.2019	Year ended on 31.03.2019
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
Total income from operations	151.37	146.93	154.75	607.74
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(4.30)	3.22	(18.82)	(6.48)
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(4.30)	3.22	(18.82)	(6.48)
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(4.30)	2.22	(16.34)	(8.30)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(4.30)	2.22	(16.34)	(8.30)
Equity Share Capital	747.74	747.74	747.74	747.74
Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations) - :	B	8530)TE	506.05
1. Basic 2. Diluted	(0.06) (0.06)	0.03 0.03	(0.22)	(0.11) (0.11)

Diluted Notes:

The above Unaudited Standalone Financial Results are reviewed by the Audit Committee, approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 14th August, 2019. Limited Review Report, as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, has been carried out by the Statutory Auditors. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites i.e. www.bseindia.com & www.cse-india.com and on the company's website i.e.

> For AVON MERCANTILE LIMITED (SATISH KUMAR GUPTA)

> > DIRECTOR

DIN: 00030841

Place: Noida Date: 14.08.2019

www.avonmercantile.in.



1, Saket, Meerut - 250 003, Ph.: 0121-2648151, 2648152 Email: dhanvantrihospital@gmail.com

Rs. in Lacs Except per Share figure

Website: www.dirl.org.in EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 2019

	Ns. III Lacs Except per Share figure						
SL NO	PARTICULARS	3-MONTHS ENDED ON 30.06.2019	YEAR ENDED 31.03.2019	QUARTER ENDED 30.06.2018			
1	Total Income from Operations	475	1,693	364			
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	23	12	41			
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	23	12	41			
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	23	5	41			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	23	5	41			
6	Equity Share Capital	410	410	410			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year		657				
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic : 2. Diluted :	0.56 0.56	0.11 0.11	1.00 1.00			

Note:-

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 for the Quarter ended June 2019. The full format of the quarter ended 30:06:2019 financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the

The above results were approved by the Audit Committee of Directors, reviewed by the Statutory Auditors of the Company and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 14.08.2019 For & On Behalf of the Board of Directors

> Sd/-(Premjit S. Kashyap) Chairman

Din: 01664811

Place: Meerut

company's website.

Dated: 14.08.2019

of Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd.